

भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक : 27/06/2025 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रचार – प्रसार व प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक : 27 जून, 2025 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 30 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सर्वप्रथम खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी डॉ. योगेश जी. काले ने हिंदी कार्यशाला की प्रस्तावना रखते हुए प्रतिभागियों को कार्यशाला के समस्त सत्रों की संक्षिप्त जानकारियां दीं।



डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी प्रतिभागियों को संक्षिप्त जानकारियां देते हुए।

हिंदी कार्यशाला में वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड नागपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय के व्याख्याताओं ने अलग – अलग विषयों पर अपने व्याख्यान दिए। इसमें वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड नागपुर के श्री दीपक सिंह चौहान, अनुवादक ने संशोधित तिमाही रिपोर्ट भाग-1 एवं भाग-2 की विस्तृत व्याख्या, भारतीय खान ब्यूरो के श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक ने ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग आदि विषयों पर तथा श्री असीम कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कार्यालयीन एवं तकनीकी शब्दावली पर व्याख्यान दिए।

अपने व्याख्यान में श्री दीपक सिंह चौहान, अनुवादक ने हिंदी तिमाही रिपोर्ट भरने में प्रायः होने वाली त्रुटियों के बारे में अवगत कराया तथा हिंदी तिमाही रिपोर्ट में सही – सही आंकड़ें किस तरह से भरा जाए उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भाषणी टूल एप्प के बारे में

बताया कि जिसके जरिए हम किस तरह से एक भाषा को दूसरी भाषा में भाषणी टूल एप्प के माध्यम से अनुवाद कर सकते हैं।



श्री दीपक सिंह चौहान, अनुवादक संशोधित तिमाही रिपोर्ट भाग-1 एवं भाग-2 पर व्याख्यान देते हुए।

श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक ने ई-ऑफिस में फाईल किस तरह से खोलते हैं और जो उसमें कॉलम होते हैं उसको किस तरह से भरते हैं तथा गृह मंत्रालय के द्वारा जो कंठस्थ टूल्स हैं उसके माध्यम से हम अंग्रेजी से हिंदी में किस तरह से अनुवाद कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारियां दीं। हिन्दी टंकण में आनेवाली समस्याओं व कठिनाईयों का भी समाधान किया।



श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग पर व्याख्यान देते हुए।

श्री असीम कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने भाषा, लिपि, वर्तनी, अक्षर एवं वर्ण के बारे में जानकारी देते हुए तकनीकी शब्दावली आयोग के बारे में विस्तार से बताया साथ ही हिन्दी शब्दावली का निर्माण कैसे हुआ इसकी जानकारी देते हुए हिंदी वर्तनी में होने वाली छोटी – छोटी त्रुटियों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से वर्तनी एवं शब्दावली का अभ्यास कराया।



श्री असीम कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्यालयीन एवं तकनीकी शब्दावली पर व्याख्यान देते हुए।

कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने अपनी विशेष रुचि दिखाते हुए व्याख्याताओं से अपनी समस्याओं का निवारण किया साथ ही ऐसी कार्यशाला समय – समय पर नियमित रूप से आयोजित किए जाने की इच्छा व्यक्त की।

अंत में श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई।